



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10022 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Pokaran has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pokaran. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governmen.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल पोकरण जिला जैसलमेर

प्रपत्र - क

वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1.	हनीफ तेली के मकान को डावा लेते हुए रहमान मिस्त्री के मकान को डावा लेते हुये अकबर कसाई के मकान को जीवणा छोड़ते हुये खुदुखा के मकान को लेते हुये फकीरों के मकान को जीवणा छोड़ते हुये डावा मदरसे को डावा लेते हुये रसीद मोहम्मद महासागर कच्ची बस्ती को जीवणा छोड़ते हुये कब्रिस्तान को असलम अस्पताल को जीवणा छोड़ते हुये मालियों के शमसानों को डावा लेते हुये माहेश्वरियों के शमसान को जीवणा छोड़ते हुये शेखुखा के मकान को डावा लेते हुये एम.ई.एस ट्यूबवैल भवरू राठी के मकान को जीवणा छोड़ते हुये हाजी हनीफ तेली के मकान तक।
2	लाभचन्द हरिशंकर व्यास के मकान को डावा लेते हुये माहेश्वरी शमसान को डावा लेते हुये नेहरू चैन विहार कालोनी को डावा लेते चुंगी नाका

	<p>मिडवे पालीवाल पेट्रोल पम्प को जीवणा छोड़ते हुये रिको कालोनी जुबली पेट्रोल पम्प को केशर आशापुरा धर्मशाला को डावा लेते हुये आशापुरा मंदिर सादलाई तालाब को जीवणा छोड़ते हुये नाथजी के धूणे को माताजी मंदिर को बंशीलाल गजधर के मकान को डावा लेते हुये हंसराज के मकान को जीवणा छोड़ते हुए सत्तू जी माली को मांगीलाल माली के मकान को जीवणा छोड़ते हुये गुलाबशाह पीर की दरगाह को जीवणा छोड़ते हुये डावा दाउ की बाड़ी पाल शौचालय श्री गोपाल गुचिया को डावा लेते हुये डावा लाभचन्द के मकान तक।</p>
3	<p>गुलाबशाह पीर की दरगाह को डावा लेते हुये बंशीलाल गजधर के माताजी मंदिर को नाथ जी धूणे को जीवणा छोड़ते हुये डावा हंसराज माली मनसा स्वामी को डावा लेते हुये हंसराज प्रेमजी माली के मकानों को जीवणा छोड़ते हुये डावा जगदीश चुन्नीलाल शिवलाल माली चणों वाले को डावा लेते हुये जगमाल माली पुखभारती को डावा लेते हुये खेताराम रावल माली कबीर आश्रम व मालियों के ब्रहम बाग को जीवणा छोड़ते हुये डावा गुलाबशाह पीर की दरगाह तक ।</p>
4	<p>मालियों के ब्रहमबाग को डावा लेते हुये कबीर आश्रम को डावा लेते हुये पुखभारती जगमाल माली शिवजी जगदीश चुन्नीलाल को जीवणा छोड़ते हुये हंसराज प्रेमजी माली सादलाई तालाब आशापुरा मंदिर को डावा लेते हुये चोरू माली नाथ जी के धूणे को जीवणा छोड़ते हुये आशापुरा धर्मशाला को जीवणा छोड़ते हुये मंदिर व सब्जी मण्डी शंकर जी माली की बाड़ी को डावा लेते सुदलाई तलाई महेश कुटिया को जीवणा छोड़ते हुये नदी नदी आनन्द आश्रम पुरोहितों की बगेची को डावा लेते हुये हनुमान मंदिर को जीवणा छोड़ते हुये सालम सागर तालाब नेपालेश्वर मंदिर को डावा लेते हुये श्री गोपाल रामसा गुचिया को जीवणा छोड़ते हुये डावा मालियों के ब्रहम बाग तक।</p>
5	<p>चांदपोल से हनुमान मंदिर को डावा लेते हुए पुरोहित बगेची आनन्द आश्रम को जीवणा छोड़ते हुए सफील मंगलपुरा स्कूल विष्णु छंगाणी महादेव जी व्यास को डावा लेते हुए अखेराज जी जोशी श्यामजी जोशी अखलेश के पुराने मकान को जीवणा छोड़ते हुये फरसाराम महाराज के</p>

	पुराने मकान को आसुलाल पुरोहित को डावा लेते हुए पंनजी पेडे वाले को जीवणा छोड़ते हुए डावा हरिवंश को जीवणा छोड़ते जुगल व्यास को डावा लेते हुए नथमल सोनी के मकान को जीवणा छोड़ते हुए चांदपोल तक।
6	अखलेश व्यास के पुराने मकान से मुरली सोनी नथमल सोनी के मकान को डावा लेते हुये जुगल व्यास को जीवणा छोड़ते हुये हरिवंश व्यास हीरालाल पुरोहित को डावा लेते रामचन्द्र पुरोहित को डावा लेते हुए महादेव व्यास रामचन्द्र कपिल विष्णु छंगाणी मंगलपुरा स्कूल को जीवणा छोड़ते हुये डावा मनोहर जोशी लालचन्द जोशी भटारों की हवेली मगन बिस्सा किशनलाल रंगा के मकानों को डावा लेते हुए घनश्याम जोशी पोला छंगाणी को दला बोहरा मोहनलाल बिस्सा को जीवणा छोड़ते हुए जानकीलाल छंगाणी उदयकिशन जी जोशी जेपी ओझा नथू बिस्सा प्यारेलाल जोशी के मकान को डावा लेते हुए ओम जी रामकिशन जी (ढढू भा) सत्यनारायण मंदिर को जीवणा छोड़ते हुए डावा रतन भा रामचन्द्र कल्ला बट्टी रंगा के मकानों को डावा लेते हुए रामदयाल छंगाणी को जीवणा छोड़ते हुए अखिलेश जी व्यास के मकान तक।
6	अखलेश व्यास के पुराने मकान से मुरली सोनी नथमल सोनी के मकान को डावा लेते हुये जुगल व्यास को जीवणा छोड़ते हुये हरिवंश व्यास हीरालाल पुरोहित को डावा लेते रामचन्द्र पुरोहित को डावा लेते हुए महादेव व्यास रामचन्द्र कपिल विष्णु छंगाणी मंगलपुरा स्कूल को जीवणा छोड़ते हुये डावा मनोहर जोशी लालचन्द जोशी भटारों की हवेली मगन बिस्सा किशनलाल रंगा के मकानों को डावा लेते हुए घनश्याम जोशी पोला छंगाणी को दला बोहरा मोहनलाल बिस्सा को जीवणा छोड़ते हुए जानकीलाल छंगाणी उदयकिशन जी जोशी जेपी ओझा नथू बिस्सा प्यारेलाल जोशी के मकान को डावा लेते हुए ओम जी रामकिशन जी (ढढू भा) सत्यनारायण मंदिर को जीवणा छोड़ते हुए डावा रतन भा रामचन्द्र कल्ला बट्टी रंगा के मकानों को डावा लेते हुए रामदयाल छंगाणी को जीवणा छोड़ते हुए अखिलेश जी व्यास के मकान तक
7	रतनलाल वकील के मकान को डावा लेकर किला व किले की खाई को

	<p>डावा लेते हुये चांदपोल के अन्दर धनजी सोनी शिव मोची के मकानों को डावा लेते हुये लूणा मोची व खेताराम माली नगर पालिका प्याउ को डावा लेते हुये गांधी चैक से कालू जी व्यास सत्यनारायण गांधी की दुकानों को डावा लेते हुये गली से सीधा प्रेमराज खत्री बट्टी गांधी के मकान को डावा लेते रोशनलाल की हवेली को जीवणा छोड़ते हुये दयाल जी व चैनसुख व्यास उंकार, मांगीलाल राठी को डावा लेते हुये रेवन्तीलाल दर्जी को जीवणा छोड़ते हुये बाबा कोटड़ी टी.डी. विभाग को डावा लेते हुये हरिजन बस्ती को जीवणा छोड़ते हुये किशन पालीवाल की दुकान को डावा लेते हुये घोड़ा चैक को खादी भण्डार को डावा लेते हुये मोहन जी व्यास को जीवणा छोड़ते हुये रतनलाल वकील के मकान तक</p>
8	<p>रहमतुल्ला तेली के मकान को डावा लेते हुये घोड़ा चैक को जीवणा छोड़ते हुये हरिजन बस्ती जेठाराम सोनी को डावा लेते हुये पंचायत समिति नगर पालिका को जीवणा छोड़ते हुये एसबीआई बैंक को हरिराम खटीक को डावा लेते हुये कानाराम जटिया हरिजन स्कूल मोती की टाल फुसाराम खटीक के मकानों को जीवणा छोड़ते हुए यासिन कसाई को डावा लेते हुए खुदु खा इनायत कसाई को जीवणा छोड़ते हुए अकबर कसाई को डावा लेते हुए रहमान मिस्त्री को जीवणा छोड़ते हुये डावा हनीफ तेली रंगो की दुकानों को डावा लेते हुये हाजी हनीफ तेली व घोड़ा चैक को जीवणा छोड़ते हुये डावा रहमतुल्ला तेली के मकान तक।</p>
9	<p>राठी सीमेण्ट से पिताम्बर खत्री कस्तूरी भवन सोनम स्वीट व्यास जी की मूर्ति को डावा लेते हुए महावीर जनरल स्टोर गांधी ऑटो मोबाईल को डावा लेते हुये पोकरण ओटो मोबाईल दरोगों के श्मसान को जीवणा छोड़ते हुये भाटीलाल पुखराज खटीक के मकान डावा लेते मदरसे व अब्दुल अजीज राणाराम खटीक को जीवणा छोड़ते हुये डावा फकीरों के मकानों को डावा लेते हुये खुदुखा व इनायत को जीवणा छोड़ते हुये फुसाराम मोती टाल हरिजन स्कूल को डावा लेते हुये हरिराम खटीक को जीवणा छोड़ते हुए कानाराम जटिया के मकान को डावा लेते हुये व बैंक भवन एस बीआई को जीवणा छोड़ते हुये डावा राठी सिमेण्ट तक</p>
10	<p>एस.डी.ओं कार्यालय को डावा लेते हुए डावा नगर पालिका कार्यालय पोकरण पुलिस थाना समिति हरनाथ जोशी महेन्द्र व्यास को डावा लेते</p>

	<p>हुए बैंक भवन टीडी कार्यालय को जीवणा छोड़ते हुए राणा दर्जी रेवन्तीलाल लक्ष्मीनारायण शर्मा को डावा लेते हुए मांगीलाल चैनसुख व्यास दयाल जी व बद्री गांधी को जीवणा छोड़ते हुए रोशनलाल हवेली आनन्दीलाल चाण्डक को डावा लेते हुए डावा अब्दुल के मकान व मनोहरसिंह के मकान को डावा लेते हुए ईश्वरजी नाई को जीवणा छोड़ते हुए एंको की पोल से डावा अस्पताल को डावा लेते हुए जोधनगर को जीवणा छोड़ते हुये डावा नखतमल साद हनीफ की दूकानों को डावा लेते हुए बस स्टेण्ड को जीवणा छोड़ते हुए खंगारसिंह को गगासिंह को जीवणा छोड़ते हुए डावा शिवनाथ हरिराम के मकानों को डावा लेते हुए कर्णोत भवन को जीवणा छोड़ते हुए एसडीओं कार्यालय तक</p>
11	<p>श्री जी के मंदिर को डावा लेते हुए दीपाराम के मकान को डावा लेते हुए लूणकरण सोनी के पीछे नुक्कड़ की गली में प्रवेश कर अखीलजी व्यास के पुराने मकान को जीवणा छोड़ते हुए सुखजी पुरोहित राठी किराणा की दूकान को डावा लेते हुये भूरजी सोनी की दूकान को जीवणा छोड़ते हुये सूरजमल सोनी जेठूसिंह मांगीलाल टावरी शंकरलाल सावणा के मकान को डावा लेते हुए जीवणलाल राठी भवंरसिंह बंशीलाल राठी हेमु खत्री को जीवणा छोड़ते हुए खंगार खत्री को डावा लेते हुए डावा भगवतसिंह रधु मास्टर दलपतसिंह के मकानों को जीवणा छोड़ते हुए नारायणसिंह व जोधसिंह की बगेची को डावा लेते हुए डावा रतन नाई भैरूलाल गुचिया वल्लभ राठी के मकान को डावा लेते हुये व रोशनलाल की हवेली बद्री गांधी के मकानों को जीवणा छोड़ते हुये डावा पुरानी कचेड़ी का डावा लेते हुये गांधी चैक से श्रीजी मंदिर तक</p>
12	<p>रामदयाल छंगाणी के मकान से डावा सत्यनाराण मंदिर को डावा लेते हुये अखील व्यास व रामचन्द्र कल्ला के मकानों को जीवणा छोड़ते हुये डावा रामाकिशन छंगाणी व ओमप्रकाश पुरोहित को डावा लेते हुये प्यारेलाल जोशी नथमल बिस्सा के मकान को जीवणा छोड़ते हुये डावा जानकीलाल रंगा के मकान को डावा लेते हुये जेपी ओझा श्याम मनोहर जोशी के मकान जीवणा छोड़ते हुए चैनसुख श्याम बोहरा माणक रंगा के मकान को डावा लेते हुये गाधियों की माताजी मंदिर को जीवणा छोड़ते हुए तेजभारती व उमरदीन लोहार व गणेश व्यास व माणक राठी को</p>

	डावा लेते हुए मोहन जी पुरोहित यासीन धोबी को जीवणा छोड़ते हुए जयकिशन राठी सीटी पोस्ट आफिस को डावा लेते हुए रामनारायण पुरोहित गणेश मंदिर को जीवणा छोड़ते हुए डावा भूरजी सोनी की दुकान को डावा लेते हुए राठी किराणा अखील जी व्यास को जीवणा छोड़ते हुए डावा रामदयाल के मकान तक
13	गणेश मंदिर को डावा लेते हुए रामनारायण पुखराज वैद्य यासीन धोबी के मकानों को डावा लेते हुए पोस्ट आफिस जे.के राठी माणक राठी को जीवणा छोड़ते हुए किशन सोनी रामचन्द्र गांधी के मकान को डावा लेते हुए डावा शौकत के मकान को डावा लेते हुए तेज भारती को जीवणा छोड़ते हुए भवानी पोल से डावा अकबर अचलदास को डावा लेते हुये मरीमों शिव मंदिर जेठमल रामावत को जीवणा छोड़ते हुये लाला नियारिया चेतनगिरी जेपी शर्मा को डावा लेते हुए डावा लालजी केरासीन को जीवणा छोड़ते हुए वीरसिंह बड़ी दूकान व नारायण शर्मा नन्दलाल शर्मा को डावा लेते हुए जेपी वकील व भगवान पानवाले को जीवणा छोड़ते हुए मावडियों के चौक को डावा लेते हुए प्रहलाद चक्की को जीवणा छोड़ते हुए गणेश मंदिर तक
14	प्रहलाद गांधी की चक्की दूकान को डावा लेते हुए गणेश मंदिर को जीवणा छोड़ते हुए डावा निजाम घोशी को जीवणा छोड़ते हुए कंवरलाल शर्मा के पुराने मकान व धनु मास्टर के मकान को डावा लेते हुए मावडियों के चौक को जीवणा छोड़ते हुए डावा जेपी वकील रामकिशन शर्मा को डावा लेते हुए बड़ी दूकान को जीवणा छोड़ते हुए शर्मा को डावा लेते हुए जेपी शर्मा चेतनगिरी को जीवणा छोड़ते हुए खुशाल दर्जी को व मिडल गर्ल्स स्कूल को डावा लेते हुये केसरबाई स्कूल चारण हॉस्टल व करणीदान के मकान को जीवणा छोड़ते हुये खत्री सुजाराम दर्जी व मोहनलाल खत्री मकान व निम्बली बेरे को डावा हेमु खत्री बंशीलाल राठी भवंरसिंह जीवण राठी मनसा चक्की को डावा लेते हुए शंकर सावणा जेठूसिंह सूरजमल सोनी को जीवणा छोड़ते हुए अनराज व्यास के औषदयालय को डावा लेते हुये प्रहलाद गांधी की दूकान तक
15	पुष्करणा भवन महेश कुटिया को डावा लेते हुए सुदलाई कालका मंदिर

	<p>को डावा लेते हुये खीवज आईटीआई को जीवणा छोड़ते हुये सभा भवन जीवण दर्जी मांगीलाल गोड़ को डावा लेते हुये सुन्दर माली डावा लेते हुए माडू के मकान व रमण माली के नये मकान को जीवणा छोड़ते हुये खिलूराम दिशान्तरी के मकान को जीवणा छोड़ते हुये शनि मंदिर गांधी के गैराज नगर पालिका प्याउ को डावा लेते हुए फता लौहार अकबर चुड़ीघर को जीवणा छोड़ते हुये धरज्जवल माताजी के मंदिर मोहनलाल बिस्सा, दला बोहरा के मकान को डावा लेते हुये किशनलाल रंगा मदन बिस्सा पुरुषोत्तम भटार लालचन्द जोशी मंगलपुरा स्कूल को जीवणा छोड़ते हुए पोला छंगाणी घनश्याम जोशी को डावा लेते हुए डावा पुष्करणा भवन महेश कुटिया तक</p>
16	<p>खीवज मंदिर को आईटीआई को डावा लेते हुये अमरावती होटल समाज कल्याण छात्रावास को जीवणा छोड़ते हुये अम्बेडकर कालोनी छंगाणियों का जाव को डावा लेते हुये मगाराम माणकराम कुम्हार को जीवणा छोड़ते हुये छोटमल भोमाराम माली के मकान को डावा लेते हुये लाल खा तेली स्कूल नम्बर 03 गिरधारी के मकान को डावा लेते हुए शंकर जी प्रेमजी की दुकानों मकान को जीवणा छोड़ते हुये रमण माली के मकान को डावा लेते हुये सुन्दर रावल माली के मकान को जीवणा छोड़ते हुये मोहिनी देवी को डावा लेते हुये मांगीलाल गोड़ जीवण दर्जी नगर पालिका सभा भवन को जीवण छोड़ते हुये भोमसिंह के मकान को डावा लेते हुये डावा खीवज मंदिर तक</p>
17	<p>भवानी पोल के बाहर फता लौहार के मकान को डावा लेते हुये शनि मंदिर रमण माली गिरधारी माली को जीवणा छोड़ते हुये शंकर जी प्रेमजी माली इनायत तेली के मकान को डावा लेते हुये स्कूल नम्बर 03 लालखा तेली छोटमल भोमाराम माली को छंगाणियों के जाव को जीवणा छोड़ते हुये मगाराम माणकराम कुम्हार को डावा लेते हुये डावा मेधववाल समाज शमसानों को डावा लेते हुए पुलिस चौकी गौशाला को समरदीन को जीवणा छोड़ते हुये तेली पूनाराम कुम्हार को डावा लेते हुये अचलदास अकबर चुड़ी घर को जीवणा छोड़ते हुये आसू लौहार को डावा लेते हुये डावा फता लौहार के मकान तक</p>

18	समरदीन को डावा लेते हुये मस्जिद दूध डेरी को डावा लेते हुये गौशाला भीलो के स्कूल व्यास बगेची टेलीफोन एक्सचेंज को जीवणा छोड़ते हुये प्रेम गिरी लक्ष्मण माली की बगेची श्याम जी साद को शिव मंदिर को डावा लेते हुये डावा भवरू साद ताराचन्द गहलोत को जीवणा छोड़ते हुये भैरूलाल माली गिरधारी कुम्हार पदमाराम कुम्हार को डावा लेते हुये कुम्हार समाज के शमसानों को जीवणा छोड़ते हुये डावा दातू टेक्सी वाले दोस्त मोहम्मद टाल वाले को डावा लेते हुये समरदीन के मकान तक।
19	भील बस्ती स्कूल औषद्यालय को डावा लेते हुये समरदीन मेघवाल शमसान अम्बेडकर कॉलोनी को जीवणा छोड़ते हुये डावा पुलिस चौकी गांधी कॉलोनी आर्दश कॉलोनी खींवज कॉलोनी को डावा लेते हुये नगर पालिका वेस्ट मैनेजमेंट बाउण्ड्री वॉल को जीवणा छोड़ते हुये डावा नैनू तेली लक्ष्मी नगर कॉलोनी बादोलाई तलाई शिव बाग शिवपुरा बस्ती को डावा लेते हुये डावा आर्दश स्कूल जीवणा छोड़ते हुए डावा डावा भील बस्ती स्कूल तक
20	आसू कुम्हार के मकान को डावा लेते हुये टेलीफोन एक्सचेंज को डावा लेते हुये भैरूलाल शिव मंदिर लक्ष्मण की बगेची प्रेमगिरी को जीवणा छोड़ते हुये डावा व्यासों की बगेची आर्दश स्कूल को डावा लेते हुये औषद्यालय एवं भील बस्ती स्कूल को अन्नाराज बारट शिवबाग को जीवणा छोड़ते हुये खत्रियों की तलाई तिरूपति एकलव्य कॉलोनी को डावा लेते हुये डावा जूनिये धोरे को ज्योतिबा फुले कॉलोनी सुन्दर नगर कॉलोनी व्यास कॉलोनी को जीवणा छोड़ते हुये डावा वन विभाग बिजली घर लोढा कॉलोनी सांगसिंह की दूकानों को डावा लेते हुये झालरा बाड़ी को डावा लेते हुये निमली जाव लूणी रावणा राजपूत को जीवणा छोड़ते हुये केशर बाई स्कूल शिवदत्त बारट को डावा लेते हुये चेतन गिरी लाला नियारिया के मकानों को जीवणा छोड़ते हुये कवर भारती जेठमल रामावत शिव मंदिर मरीमों को डावा लेते हुये डावा आसू कुम्हार के मकान तक
21	ईशरजी नाई के मकान को डावा लेते हुये दलपत रघुमास्टर भगवतसिंह के मकानों को डावा लेते हुये जोधसिंह की बगेची खंगार खत्री हेमु खत्री

	<p>को जीवणा छोड़ते हुये छोगालाल खत्री टीकम खत्री के मकानों को डावा लेते हुये निम्बली बेरी मोहन खत्री के मकान को जीवणा छोड़ते हुये मोतीसिंह गोविन्द खत्री पृथ्वीसिंह करणीदान के मकान को डावा लेते हुये सूजा दर्जी केशर बाई झालरा बाड़ी को जीवणा छोड़ते हुये चारण हास्टल लूणी राणा राजपूत अब्दुल करीम को डावा लेते हुये सड़क जोधनगर को डावा लेते हुये बस स्टेण्ड अस्पताल को मनोहरसिंह के मकान को जीवणा छोड़ते हुये डावा ईश्वर नाई के मकान तक ।</p>
22	<p>बस स्टेण्ड को डावा लेते हुये जोधनगर लोढा कॉलोनी बिजलीघर वन विभाग को जीवणा छोड़ते हुये व्यास कॉलोनी सुन्दर नगर ज्योतिबा फुले कॉलोनी जूनिया धोरे सब्जी बण्डी को डावा लेते हुये शाले मोहम्मद मोहन पूना/गिरधारी बाबूराम को डावा लेते हुये गुडाराम रूपाराम को जीवणा छोड़ते हुये डावा हरजीराम मोनाराम को डावा लेते हुये हीराराम सांसी बीराराम गवारिया सभा भवन को जीवणा छोड़ते हुये पूंजाराम बूटाराम भील को डावा लेते हुये डावा विक्रमसिंह को जीवणा छोड़ते हुये जेठूसिंह कूम्पसिंह को डावा लेते हुये रूपसिंह के भूखण्डों बस स्टेण्ड कॉलोनी परबतसिंह की दूकानों को जीवणा छोड़ते हुये डावा बस स्टेण्ड तक।</p>
23	<p>परबतसिंह की दूकानों से बस स्टेण्ड कॉलोनी को डावा लेते हुये डावा जेठूसिंह कूम्पसिंह को जीवणा छोड़ते हुये विक्रमसिंह नगर पालिका पोकरण सभा भवन वीराराम गवारिया गुडाराम रूपाराम को डावा लेते हुये मोबूराम पूना गिरधारी मोहन को जीवणा छोड़ते हुये रेल्वे टेक स्कूल को जीवणा छोड़ते हुये एफसीआई गोदामों गणपतसिंह हरिसिंह ग्राम सेवक के मकानों को डावा लेते हुये रमणलाल गुचिया को जीवणा छोड़ते हुये प्रतापसिंह को डावा लेते हुये श्रवणसिंह गंगासिंह को जीवणा छोड़ते हुये खंगारसिंह भगवतसिंह के मकानों को डावा लेते हुये हायर सैकेण्डरी स्कूल बाउण्डी वॉल को जीवणा छोड़ते हुये बस स्टेण्ड कॉलोनी परबतसिंह की दूकानों तक ।</p>
24	<p>कर्णोत भवन को डावा लेते हुये एसडीओ निवास को शिवनाथ हरिराम को जीवणा छोड़ते हुये श्रवणसिंह रमणलाल गुचिया को डावा लेते हुये</p>

	<p>गणपतसिंह हरिसिंह ग्राम सेवक के मकान एफसीआई गोदाम को जीवणा छोड़ते हुये रेल्वे ट्रेक स्कूल डावा लेते हुये डावा डावा भीलों की ढाणियों को डावा लेते हुये कैलाश टेकरी मिल्ट्री एरिया डूगरसर तलाब को डावा लेते हुये बास्तापीर सतियों के देवल एमईएस महासागर बस्ती डेरी को जीवणा छोड़ते हुये पानी की टंकी रेल्वे स्टेशन डाक बंगला बिजली घर को डावा लेते हुये श्याम चमचम प्रेमचन्द जैन सैनी अम्बेडकर सर्किल को जीवणा छोड़ते हुये सहकारी समिति एसबीआई बैंक को डावा लेते हुये डावा कर्णोत भवन ।</p>
25	<p>पोकरण पेट्रोल पम्प को डावा लेते हुये एसडीओ कार्यालय कर्णोत भवन डाक बंगला रेल्वे स्टेशन को जीवणा छोड़ते हुये अम्बेडकर कर सर्किल को सैनी प्रेमचन्द जैन श्याम चमचम डेरी को एमईएस को डावा लेते हुये मिल्ट्री एरिया डूगरसर तालाब को जीवणा छोड़ते हुये बास्तापीर सतियों का देवल को दरगाह को डावा लेते हुये गोमट तालाब को जीवणा छोड़ते हुये रामदेव कालोनी को डावा लेते हुये केशर को जीवणा छोड़ते हुये डावा पालीवाल पेट्रोल पम्प व्यास जी की दूकाने मिडवे को डावा लेते हुये जुबली पेट्रोल पम्प रिको चैनविहार कालोनी नेहरू कालोनी मदरसे को जीवणा छोड़ते हुये डावा एमएलए साहब चुंगी नाका दरोगों के शमसानों को डावा लेते हुये सोनम स्वीट को जीवणा छोड़ते हुये डावा पोकरण पेट्रोल पम्प तक ।</p>

अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका पोकरण

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।